

August 7, 2020

Asst. Vice President, Listing Deptt., National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), MUMBAI - 400 051 Scrip Code: HEROMOTOCO The Secretary, **BSE Limited** 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, MUMBAI - 400 001 Scrip Code: 500182

Re: Newspaper advertisement- Disclosure under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sirs,

Please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published regarding the issue of duplicate share certificates in lieu of original share certificates that are reported to be lost and not traceable.

Kindly note that duplicate share certificates will be issued to the concerned shareholders in case no objection is received on the advertisement.

This is submitted for your information and records.

Thanking you,

For Hero MotoCorp Limited

(Neerja Sharma) Company Secretary & Chief Compliance Officer

Encl.: As above

FINANCIAL EXPRESS

HBL POWER SYSTEMS LIMITED CIN:L40109TG1986PLC006745 Regd. Off: 8-2-601, Road No.10, Banjara Hills, Hyderabad – 500 034 **U** NOVARTIS NOTICE Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 and 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) NOVARTIS INDIA LIMITED Regulations, 2015, it is hereby informed that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, August 14, 2020 inter-alia to consider and to Registered Office: Inspire BKC, Part of 601 & 701, Bandra Kurla Complex Bandra (East), take on record unaudited (standalone/consolidated) financial results for the - 400 051 Maharashtra, India. Tel.: +91 22 50243000; Fax: + 91 22 50243010; Mumbai guarter ended June 30, 2020 pursuant to SEBI (LODR) Regulations, 2015. Email: india.investors@novartis.com; Website: www.novartis.in; For HBL Power Systems Limited CIN: L24200MH1947PLC006104 Sd/- MVSS Kumar Place : Hyderabad Date : 06/08/2020 **Company Secretary** EXTRACT OF UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30[™] JUNE, 2020 SAB EVENTS AND **GOVERNANCE NOW** (₹ in Million) CIN: L22222MH2014PLC254848 3 months 3 months Year Regd. Off .: 7th Floor, Adhikari Chambers, Oberoi Complex, ended ended ended New Link Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053 Particulars 30.06.2020 30.06.2019 31.03.2020 E-mail: cs@governancenow.com; Website: www.governancenow.com Tel.: 022 40230711; Fax: 022 26305459 (Unaudited) (Unaudited) (Audited) NOTICE Notice is hereby given in terms of Regulation 29 and 47 of SEBI Total Income 994.2 1.202.0 4,743.9 (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Net Profit for the period before tax 64.1 13.1 286.4 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, August 12, 2020, through electronic mode inter alia to Net Profit for the period after tax 43.9 7.9 100.8 consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the guarter ended June 30, 2020. Total Comprehensive income/(loss) 43.9 79 (96.5)The information is also available on the website of the Company viz for the period (comprising profit for www.governancenow.com and is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India the period after tax and other Limited (www.nseindia.com) where the shares of the Company are comprehensive income after tax) listed. For SAB Events & Governance Equity Share Capital 123.4 123.4 123.4 **Now Media Limited** (of ₹ 5 each, fully paid) Place: Mumbai Sd/-Date: August 6, 2020 Swity Gada Other Equity 7.083.9 **Company Secretary & Compliance Officer** Earnings Per Share (of ₹ 5 each) Hero MotoCorp Limited (*not annualised) Regd. Office: The Grand Plaza, Pict No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj. - Phase-II, New Deihi - 110070 CIN: L35911DL1984PLC017354 | Phone: 011-011-46044220 Fax: 011-46044399 | E-mail: secretarialho@heromotocorp.com Website: www.heromotocorp.com Basic and Diluted (₹) 0.32* 4.08 1.78* Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the PUBLIC NOTICE FOR ISSUE OF DUPLICATE SHARE CERTIFICATES guarter ended 30th June 2020 filed with the Stock Exchange under Regulation Members of the general public and existing shareholders of Hero MotoCorp Ltd. ('Company') are hereby informed that the original Share 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Certificates, details of which are given hereunder have been reported lost/misplaced/stolen/not received and that pursuant to requests Regulations, 2015. The full format of the financial results for the guarter received in this regard the Company intends to issue duplicate share ended 30th June 2020 are available on the stock exchange website, certificates in lieu of the said original Share Certificates in their favour. www.bseindia.com and on the Company's website, www.novartis.in On behalf of the Board Place : Mumbai Sanjay Murdeshwar Date : 6th August, 2020 Vice Chairman and Managing Director FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF WABCO INDIA LIMITED Registered Office: Plot No. 3 (SP), III Main Road, Ambattur Industrial Estate, Chennai, Tamil Nadu – 600058, India; Tel: +91 44 3090 2600/ 4224 2000; Fax: +91 44 3090 2609/4224 2009; Website: www.wabcoindia.com Any person having objections to the issue of duplicate Share Certificates as mentioned herein above, may submit the same, in writing, with the OPEN OFFER FOR THE ACQUISITION OF UPTO 4,741,900 (FOUR MILLION SEVEN HUNDRED FORTY-ONE THOUSAND NINE Company marked to the 'Secretarial Department' at its Registered Office HUNDRED ONLY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 (RUPEES FIVE ONLY) EACH OF WABCO INDIA or send an email at secretarialho@heromotocorp.com within 7 days LIMITED ("TARGET COMPANY"), REPRESENTING 25%* (TWENTY-FIVE PER CENT.) OF THE TOTAL FULLY PAID-UP FULLY from the date of publication of this Notice. In the meanwhile, members of DILUTED VOTING EQUITY SHARE CAPITAL OF THE TARGET COMPANY AS OF THE 10TH (TENTH) WORKING DAY FROM the public are hereby cautioned against dealing in the above mentioned THE CLOSURE OF THE TENDERING PERIOD OF THE OPEN OFFER FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET Share Certificates. COMPANY BY ZF FRIEDRICHSHAFEN AG ("ACQUIRER") TOGETHER WITH WABCO ASIA PRIVATE LIMITED ("PAC 1"), LUCASVARITY ("PAC 2") AND ZF INTERNATIONAL UK LIMITED ("PAC 3") (PAC 1, PAC 2 AND PAC 3 COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "PACs") IN THEIR CAPACITY AS PERSONS ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRER ("OPEN For Hero MotoCorp Ltd. Neerja Sharma Place : New Delhi **Company Secretary & Chief Compliance Officer** OFFER"). Date : 06.08.2020 As per SEBI (SAST) Regulations, the open offer under Regulations 3 and 4 shall be for at least 26% of the total share capital of a target company, as of the 10th working day from the closure of the tendering period of the open affer. However, the public shareholding of the Target Company is 25% as an date, and therefore, the Offer Shares represent 25.00% of the Voting Share Capital of the Target Company.

This advertisement ("Advertisement") is being issued by J.P. Morgan India Private Limited (hereinafter referred to as "Manager to the Offer"), for and on behalf of the Acquirer and the PACs, pursuant to and in compliance with the Securities and Exchange Board of India circular bearing reference number SEBI/CIR/CFD/DCR1/CIR/P/2020/83 dated 14 May 2020 read with SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2020/139 dated 27 July 2020 (collectively referred to as "Relaxation Circulars") to supple

(a) the public announcement in connection with the Open Offer, made by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer and PACs. to NSE and BSE on 2 April 2019 ("Public Announcement");

(b) the detailed public statement in connection with the Open Offer, published on 3 June 2020 in the following newspapers: Financial Express (English - all editions), Jansatta (Hindi - all editions), Makkal Kural (Tamil - Chennai edition) and Mumbai Tarun Bharat (Marathi - Mumbai edition) ("DPS"); and

(c) a corrigendum to the DPS in connection with the Open Offer, published on 6 August 2020 in the following newspapers: Financial Express (English - all editions), Jansatta (Hindi - all editions), Makkal Kural (Tamil - Chennal edition) and Mumbai Tarun Bharat

Folio no	Shareholders Name	Face value	Distinctive no's	Certificate no's	No of shares
HML0081306	A S SATAYANARAYANA	Rs.10/-	20999999-21000023	344537	25
HML0093171	RAVINDRA	Rs.10/-	1449016-1449065	28990	50
	DATTATRYA	10000	14887016-14887035	156670	20
	BHOSLE		18555556-18555565	252109	10
			18555566-18555570	252110	05
	1.11.11.1.1.1	1.00	18555571-18555572	252111	02
		14.1	32375145-32375194	354590	50
	E STORE SA		32375195-32375231	354591	37
HML0093171	RAVINDRA DATTATRYA BHOSLE	Rs.2/-	158276426- 158277295	514895	870

30 YEARS MOTILAL OSWAL

Motilal Oswal Financial Services Limited CIN: L67190MH2005PLC153397

: Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road, Opposite Parel S.T. Depot, Prabhadevi, mbai - 400 025. Telephone No: +91 22 7193 4200; Fax No: +91 22 5036 2365; /ebsite: www.motilaloswalgroup.com; Email: shareholders@motilaloswal.com

NOTICE

by given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies oct") read with the Investor Education and Protection Fund Authority

-	STATISTICS, STATIS
	1.0

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में

बदलने के लिए अखबार में प्रकाशित किया जाने वाला विशापन

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निवेशक, उत्तरी क्षेत्र,

नई दिल्ली के समय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4)

और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

48 nours of declaration of financial

results of the Company for the Quarter ended on 30th June, 2020

The said Notice may be accessed on the Company's website at

http://www.prabhatsecuritiesItd.com

and may also be accessed at CSE & MSEI website at http://www.cse-

10 जनसत्ता, 7 अगस्त, 202	10	जनसत्ता,	7	अगस्त,	2020)
--------------------------	----	----------	---	--------	------	---

भ्मना के विरुद्ध कोई दावी नहीं की जी सकती हैं। शेयरधारकी नियमावली में निर्देष्ठ प्रक्रियाओं की
गनुसरण करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से ऐसे शेयरों पर उपचयित सभी लाभों, यदि कोई हो,
हित आईईपीएफ में अंतरित लाभांश तथा तत्स्थानीय शेयरों को प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं।
परोक्त विषय पर किसी भी प्रकार की पुछताछ के लिये शेयरधारकों से अनुरोध है कि कम्पनी के
मेल investorshelpline@prakash.com पर सम्पर्क करें तथा 011-25305800 पर सम्पर्क हरें।
गकाण इंडस्टीज लिमिटेड के लिसे

	statet gatget terries at terri
	हस्ता./-
थानः नई दिल्ली	अश्विनी कुमार
र्शियः 6.8.2020	(कम्पनी सचिव)

	लीडिंग	लीजिंग	फाइनेंस	एण्ड	इन्वेस्टमेंट	कम्पनी	लिमिटेड
		सीउ	आईएन : L65	5910DI	.1983PLC01	6712	
ांजीकृत व	हार्यालय : 50	4-टी-2-एनः	डी प्लॉट सं. 6.	/4 जैना ट	ीएच एफ डिस्ट्रिव	ट सेंटर, जनव	कपुरी, नई दिल्ली-110058
	ई-मेल	आईडी : le	adingleash	ing@g	mail.com, (व	न.) 011-6	5632288

31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही हेत लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

वरण	समाप्त	अब तक वर्ष के	
_{धरण} ीचे नोट का सन्दर्भ लें)	तिमाही⁄समाप्त वर्तमान वर्ष	आंकड़े∕समाप्त गत वर्ष	समाप्त संगत 3 तिमाही
	(31.03.2020) (लेखापरीक्षित)		
प्रचालनों से कुल आय	189.60	459.28	58.66
अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व*)	4.33	184.03	48.41
अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात*)	3.14	183.11	48.41
कर पश्चात अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	2.53	135.50	33.25
अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से निर्मित]	2.53	135.50	33.25
इक्विटी शेयर पूँजी	533.50	533.50	533.50
आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर) जैसा गत वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित है	289.38	289.38	153.89
आयर प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक के) (सतत तथा असतत प्रचालनों हेतु)-			
1.बेसिकः	(1.11)	2.54	0.62
2.डाइल्यूटेड :	(1.11)	2.54	0.62

उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दर्ज तिमार्ह वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज(जों) की वेबसाइट तथा सूचीबद्ध संस्था पर उपलब्ध हैं।

लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के कारण निबल लाभ/हानि, कुल व्यापक आय अथवा कोई अन्य प्रासंगिक वित्तीय मदों क फटनोट के माध्यम से प्रकट किया जायेगा।

कते लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमि

5./-	1 1-2 5-					
अमी जिनेन शाह						
पद : निदेशक						
एन : 06792048						
107		कमामि	न्वेस्टमेंट	 u Yu	 	

सीआईएन : L65910DL1983PLC016712 पंजीकृत कार्यालय : 504-टी-2-एनडी प्लॉट सं. 6/4 जैना टीएच एफ डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 ई-मेल आईडी : leadingleashing@gmail.com, (का.) 011-65632288

नांक : 06.08.2020

नांक : 06.08.2020

31.03.2020 को समाप्त तिमाही हेतु लेखापरीक्षित परिणामों का विवरण

आस्तियों तथा दायित्वों का स्टैण्डएलोन विवरण	तिथि को (वर्तमान वर्ष)	तिथि को (समाप्त गत वर्ष
विवरण	(31/03/2020)	(31/03/2019)
आस्तियाँ		
गैर-चालू आस्तियाँ		
(a) अचल आस्तियाँ	0.03	0.07
(b) समेकन पर प्रतिष्ठा *		
(c) गैर-चालू निवेश		
(d) आस्थगित कर आस्तियाँ (निबल)	-	
(e) दीर्घकालिक ऋण तथा अग्रिम	12,264.53	1,363.49
(f) अन्य गैर-चालू आस्तियाँ	2.22	2.22
(g) अन्य वित्तीय आस्तियाँ		
उप-योग - गैर-चालू आस्तियाँ	12,266.78	1,365.78
चालू आस्तिगाँ		
(a) चालू निवेश		
(b) इन्वेन्ट्री	2.78	2.78
(c) व्यापार प्राप्तियाँ	21.10	51.38
(d) नकद तथा नकदी समतुल्य (e) अल्पकालीन ऋण तथा अग्रिम	6.81 0.03	8.95
(f) अन्य चालू आस्तियाँ	0.03	0.03
उप-योगः चालू आस्तियाँ	30.72	63.14
कुल-आस्तियाँ	12297.50	1428.92
इक्विटी तथा दायित्व		
शेयरधारक की निधि		
(a) शेयर पूँजी	533.50	533.50
(b) आरक्षितियाँ एवं अधिशेष (c) शेयर वारंट के विरुद्ध प्राप्त धन	289.38	153.89
	-	-
उप-योग : शेयरधारक की निधि	822.88	687.39
शेयर अनुप्रयोग धन लम्बित आवंटन	-	-
अल्पसंख्यक ब्याज *	-	
गैर-चालू दायित्व		
 (a) दीर्घकालीन उधारियाँ (b) आस्थगित कर दायित्व (नियल) 	11,345.01	654.03
(b) आरम्पानंत कर दायित्व (c) अन्य दीर्घकालिक दायित्व		
(d) दीर्घकालिक प्रावधान		
(प) सम्मारम प्राप्ता उप-योग : गैर-चालू दायित्व	11345.01	654.03
चाल दायित्व	11545.01	054.05
(a) अल्पकालीन उधारियाँ		
(b) टेड देयताएँ	28.11	29.03
(c) अन्य चालु दायित्व	39.60	15.63
(d) अल्पकालीन प्रावधान	55.01	25.06
(e) अन्य वित्तीय दायित्व	-	-
(f) चालू कर दायित्व (निबल)	6.89	17.78
उप-योग - चाल् दायित्व	129.61	87.50
कुल : इक्विटी तथा दायित्व	12,297,50	1,428.92

कृते लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड

नाम : अमी जिनेन शाह पद : निदेशव

डीआईएन : 0679204

एक्सप्रेसवे सैक्टर -18,गुरुग्राम, हरियाण में है, के मामले में एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों एवं प्रकाटिकरण आवश्यकताओं) आम जनता को यह नोटिस दी जाती अधिनियम 2015 के अंतर्गत विनियम केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम

By order of the Board

Parul Choudhary

Company Secretary

Sdl-

For Medicamen Biotech Limited

29(1)(अ) के नियमन 47 के अनुसार कंपनी के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 14 अगरत, 2020 को प्रातः 11:30 बजे, महमूदाबाद एस्टेट बिल्डिंग, 15-हजरतगंज, लखनऊ में आयोजित की जाएगी. जिसमें कार्यसूची के अनुसार अन्य विषयों के साथ बिना लेखा परीक्षा के दिनांक 30.06.2020 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा।

be accessed on the Stock Exchange website at

यू.पी. एसबेस्टस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय :

पो. ऑफ. मोहनलालगंज, लखनऊ-226301 (यू.पी.)

ww.bseindia.com

Place: New Delhi

Dated: 06.08.2020

कृते यू.पी. एसबेस्टस लिमिटेड हस्ता, (मनीच कम - सिंह)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	177119 45	111 111
दिनांक : 06.08.2020		सचिव

VLS FINANCE LTD. Regd. Off. : 2nd Floor, 13, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-110065 CIN: L65910DL1986PLC023129

Ph. No.:011-46656666, Fax: 011-46656699 Email : vls@vlsfinance.com, website: www.vlsfinance.co NOTICE

Notice is hereby given in terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 31st August, 2020, inter-alia to consider the Unaudited Financial Results for the guarter ended on 30th June, 2020.

This notice is also available on the concerned stock exchange's website www.bseindia.co.in, www.nseindia.co.in, www.cse-india.com and Company's website www.vlsfinance.com.

The members of the Company are requested to update email address, PAN and bank details with concerned depository participant for shares held in electronic form and with the Company for shares held in physical form to facilitate communication from the Company. for VLS Finance Ltd.

H. Consu

Place: New Delhi Date: 06.08.2020 **Company Secretary** M.No. - A11183

तरंगिनी इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड सीआईएन: L67190DL1982PLC013486 पंजीकृत कार्यालयः के-37/ए, बेसमेंट, कैलाश कॉलोनी, निकट कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली-110048

ई-मेलः tarangini0123@gmail.com वेबसाइट : www.taranginiinvestmentsltd.com

बोर्ड बैठक की सूचना

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के के अनुसार अन्य बात के साथ–साथ 30 जून को समाप्त तिमाही हेतु कम्पर्न के रिपोर्ट की समीक्षा सहित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल (3/2020-21) की बैठक शुक्रवार 14 अगस्त, 2020 को 02:30 बजे अप. आयोजित क जानी निर्धारित है।

पनः इनसाइडर टेडिंग की रोकथाम के लिए कम्पर्न की आचार संहिता के अनुसार प्रमोटरों, निदेशकों निर्दिष्ट कर्मचारियों तथा संहिता के तहत कवर सर्भ व्यक्तियों के लिए 01 जुलाई, 2020 से 17 अगस्त 2020 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक अर्थात वित्तीर परिणाम के प्रकाशन के 48 घण्टे पश्चात तक बन रहेगी।

कथित कम्पनी की वेबसाइत सूचना www.taranginiinvestmentsltd.com अथव स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.msei.in सं एवसेस की जा सकती है।

बोर्ड के आदेशानुस कते तरंगिनी इन्वेस्टमेंटस लिमिटेः

स्थानः नई दिल्ली पंकज खेतान (निदेशक तिथि: 06.08.2020 डीआईएन: 0156741

के मामले में और अग्र ाहा इंग्रज्ञाप्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U45200HR2009PTC039868) जिसका पंजीकृत कार्यालय : 90वी दिल्ली-जयपुर	MSEI website at http://www.cse- india.com&http://www.csei.in. For Prabhat Securities Limited Ramakant Kushwaha Place: Kanpur54 Date: 06.08.2020 (Managing Director)
एक्सप्रेसवे सैक्टर -18,गुरुग्राम, हरियाणा -122001 में हैं, के मामले में	प्रतिशत दर ई-निविदा
आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता आम जनता को यह गोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी आंधनियम, 2013 की बारा केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी आंधनियम, 2013 की बारा 13 के अंधीन आवादन सक्षर कंप्र तस्ता करती है जिस्से कंपनी का पर्जाकृत क्यांलय "हरियाणा राज्य" से "पश्चिम कंपनी का पर्जाकृत क्यांलय "हरियाणा राज्य" से "पश्चिम कंपनी के पंजीकृत क्यांलय में स्थानित रि बुन् 2020 की आंधनित आसायापण सामाय्व केंटक में पारित कियो व्यक्ति का सित प्रभावित स्थानांतरण से यदि कियो व्यक्ति का सित प्रभावित स्थानांतरण से यदि कियो व्यक्ति का सित प्रभावित स्थानांतरण से यदि कियो व्यक्ति का सित प्रभावित होता है ने तक्त व्यक्ति या तो निर्वेत्राक तिकस्पत प्रस्थ फाइल कर एमसीए-21 धोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सक्कता है या एक शपथ पत्र जिससे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध क कराण उत्तित्रिता से के साथ अपनी आपति केंसेया निर्देशक को इस मुपना के प्रकाशन की तारीक से 14 दिनों के भोतर केंग्रेस निदेशक, उत्तरी खेत्र, कारपोट कंसंभ मंत्रालय, बो-2 विंग, दूसरा तत, पंडित दीनवयाल अत्येदय भवन, सोनिजो कोप्पलेक्त, कंद्रे दिन्हर दीनवयाल अत्येदय भवन, सोनिजो कोप्रपोत्कृत कर्षात्रीय पत्रे प्रस्त आदि आवेदक कंपनी को उनके तिम्बलिदित पंजीकृत कर्षाक्र प्रति आवेदक कंपनी को उनके तिम्बलिदित पंजीकृत कर्षाक्रेय सिकर राक्ष, दुहज्याम, इरियाण–122001 आवेदक के लिए जीर आवेदक कीओर से अन्य्राहर प्रजाप्रोज दियाक्र सरा/- दिवाक: 06 अगस्त 2020 (निदेशक)	अगमन्त्रण प्रेस सूचना भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधिशासी अभियन्ता (सी), पोस्टल सिविल डिवीजन, नई दिल्ली निम्नलिखित काय हेतु ऑनलाइन प्रतिशत दर (सीपीडब्ल्यूडी-7) ई-निविदाएँ आमन्त्रित करते हैं : नि.आ.सू. सं.: NIT/EEPC- ND/2020-21/39 दिनांक: 06.08.2020 कार्य का नाम: डाक भवन, नई दिल्ली में 13 नग टॉयलेट (23जी, 24जी, 27जी, 34जी, 37एल, 38जी, 41जी, 42जी, 43जी, 44जी, 46जी, 47जी, 51जी) तथा शाफ्ट वे नवीकरण का कार्य। अनुमानित लागत 66,55,000/- धरोहर राशि: 1,33,100/- समापन अवधि : 08 माह संविदा जमा करन् की अन्तिम तिथि तथा समय: 17.08.2020 को 15:00 बजे तक संविदा प्रपत्र तथा अन्य विवरण वेबसाइट www.dopcivil.euniwizarde.com से प्राप्त किये जा सकते हैं।
एनीटाइम चैनल्स विभाग, एयर ।	SBI इंडिया बिल्डिंग, कॉरपोरेट सेन्टर, रुंबई - 400 021.
कृपया टोटल आउटसोर्स्ड मॉडल (टीओएम) संस्थापित करने के लिए शुद्धिपत्र-5 (आर	पत्र-6) फेस XIV (वर्ष 2020) के अंतर्गत एटीएम्स एफपी सं.: SBI/AC/2019-20/006 दिनांक अ टिपान-6 टिनांक 07 08 2020 टाजनलोट

कपया टोटल आउटसोर्स्ड मॉडल संस्थापित करने के लिए शुद्धि dST 07.02.2020) दिनांक 15.06.2020 देखें. शुद्धिपत्र-6 दिनांक 07.08.2020 डाउनलोड किए जाने के लिए 07.08.2020 से उपलब्ध है. इसकी विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाइट https://bank.sbi या https://sbi.co.in पर लिंक "प्रोक्योरमेन्ट न्यूज' पर उपलब्ध है. हरताक्षर उप महाप्रबंधक (एटीएम–आईएंडएस)

स्थान: मुंबई दिनांक: 07/08/2020

स्थानः नई विल्ली

दिनांक: 06.08.2020



आम जनता के सदस्यों और हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ('कंपनी') के मौजुदा शेयरधारकों को सुचित किया जाता है कि मूल शेयर प्रमाणपत्र (जिसका विवरण नीचे दिया गया है) चोरी हो गए हैं / नहीं मिले हैं / गुम हो गए हैं, ऐसी सूचना अनुसारी चिंतित शेयरधारकों दावेदारों से इस संबध मे प्राप्त हुई हैं। कंपनी उनके पक्ष में मूल शेयर प्रमाणपत्रों के एवज में डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का इरादा रखती है:

फोलियो नं.	शेयरधारकों का नाम	अंकित मूल्य	डिसटिन्कटिव नं,	प्रमाणपत्र संख्या	शेवर्से की संख्या
HML0081306	ए एस सत्यानारायण	枣, 10/-	20999999-21000023	344537	25
HML0093171	रवीन्द्र दत्तात्रेय	表, 10/-	1449016-1449065	28990	50
	भोसले		14887016-14887035	156670	20
	- n ci ci		18555556-18555565	252109	10
			18555566-18555570	252110	05
			18555571-18555572	252111	02
			32375145-32375194	354590	50
			32375195-32375231	354591	37
HML0093171	रवीन्द्र दत्तात्रेय भोसले	枣 2/-	158276426- 158277295	514895	870

किसी भी व्यक्ति को अगर कंपनी द्वारा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने से आपत्ति है तो इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों के भीतर लिखित में कंपनी 'सचिवीय डिपॉटमेंट' को प्रस्तुत करते हुए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर या ई-मेल secretarialho@heromotocorp.com भेजें। इस बीच, जनता के सदस्यों को ऊपर उल्लेख शेयर प्रमाण पत्रों में निवेश करने के खिलाफ आगाह किया जाता है।

कते हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड

इस्ता./-नीरजा शर्मा

कंपनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी